



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2008/पौष 2, 1930

No. 1791]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2008/PAUSA 2, 1930

केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

तिरुवनन्तपुरम, 30 सितम्बर, 2008

सं. 1/2008-कस.

का.आ. 2954(अ).—पत्तन अधिकारी, नीडकरा पत्तन, जिनका कार्यालय आश्रमम, कोल्लम में है उन्हें केरल सरकार के दिनांक 27-2-2008 के जी.ओ. (आरटी) सं. 131/2008 एफ व पी.डी. द्वारा अभिरक्षक पदनामित किया गया है (जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप में अभिरक्षक कहा जाएगा) अभिरक्षक ने आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनन्तपुरम को उक्त जी.ओ. द्वारा अपने को अभिरक्षक पदनामित किए जाने की तथ्य की पुष्टि की है । पत्तन निदेशक, पत्तन निदेशालय, तिरुवनन्तपुरम ने पत्र सी सं. सी 1-1007/2007 दिनांक 28-2-2008 द्वारा सीमा एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त तिरुवनन्तपुरम के पास आवेदन किया है कि पत्तन अधिकारी, नीडकरा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 (1) के अंतर्गत कोल्लम समुद्र पत्तन के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करें ।

पत्तन अधिकारी, समुद्र पत्तन, कोल्लम, कोल्लम जिला, केरल राज्य को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45 (1) के अधीन अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें विभिन्न निर्यातकों/ आयातकों द्वारा समय समय पर निर्यात/ आयात करने के लिए माल के वहन करनेवाले कंटेनरों के प्रवेश/ प्रस्थान की अनुमति देने के लिए या एवं अन्य खाली कंटेनरों/ माल को निर्दिष्ट स्थान में (कंटेनर यार्ड) संग्रहण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है

1. अभिरक्षक जहाज/सड़क/रेल द्वारा खाली कंटेनरों/ लदे हुए कंटेनरों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में आगमन/ प्रस्थान सहित माल के आयात और निर्यात के लिए अनुमति देगा. वह उचित प्राप्ति/लादने/उतारने/ संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा.

2. अभिरक्षक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 (2) उपबंधों का तथा समय समय पर जारी किए जाने वाले नियमों एवं विनियमों और अनुदेशों का अनुपालन करेगा.
3. अभिरक्षक कंटेनर बन्द जहाजी माल को लादने/ उतारने एवं उसके रखरखाव के लिए सुरक्षित, सुनिश्चित एवं विस्तृत परिसर की व्यवस्था करेगा . अभिरक्षक माल की उचित प्राप्ति/ लादने/ उतारने और संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी आयात माल को उतारने के बाद या निकासी से पहले नष्ट होने पर तथा निर्यात/ वाहनांतरण के लिए रखे माल के नष्ट होने पर उत्तरदायी होगा.
4. कोई भी आयातित/ निर्यात किए गए या वाहनांतरित किए जानेवाले माल के अपहरण/ चोरी होने पर या सीमाशुल्क क्षेत्र में उतारने के बाद या अभिरक्षक की अभिरक्षा में रहने के दौरान नष्ट होने पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(3) के उपबंधों के अधीन अभिरक्षक ऐसे माल पर सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.
5. यदि आयातित/निर्यात किए गए या वाहनांतरित किए जानेवाले माल जिसे उतारने के बाद 30 दिन के भीतर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर गृह उपभोग के लिए या गोदाम के लिए खाली नहीं किया जाता है या निर्यात/यानांतरित नहीं किया जाता है या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार आयातक जिन आयातित मालों पर अपना स्वत्वाधिकार छोड़ देता है, ऐसे माल को अभिरक्षक उचित अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करके और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150 में बताए गए कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के उपबंधों के अंतर्गत बेचा जा सकता है .
6. जो माल आयातित हो, लेकिन 30 दिन के भीतर जिसकी निकासी नहीं हुई हो तो उसे सीमाशुल्क के उपयुक्त अधिकारी के ध्यान में लाना होगा .
7. अभिरक्षक क्षेत्र में भरी हुई या खाली अवस्था के कंटेनरों को चढ़ाने/ उतारने के लिए पर्याप्त एवं आधुनिक लादान/ उतारने के उपकरणों की व्यवस्था करेगा.
8. अभिरक्षक आयुक्त की सहमति के बिना स्थान, सीमा की दीवार, भवन आदि की योजना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा .
9. अभिरक्षक सीमाशुल्क क्षेत्र में संग्रहित सभी माल का बीमा कराएगा.
10. अभिरक्षक शुल्क की उचित अदायगी के लिए उचित फार्म में एक बॉण्ड प्रस्तुत करेगा. बॉण्ड का मूल्य सीमाशुल्क परिसर में 30 दिन की अवधि तक अभिरक्षण किए जाने वाले

माल पर लगाये जानेवाले शुल्क के औसत के समान होगा. बांड की राशि का आयुक्त द्वारा प्रति वर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा.

11. परिसर की सुरक्षा अभिरक्षक का उत्तरदायित्व होगा, जिसकी व्यवस्था आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के शर्तों के अधीन की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था का व्यय अभिरक्षक द्वारा वहन किया जाएगा.
12. अभिरक्षक सीमाशुल्क अधिकारियों के लिए फर्नीचर युक्त स्वतंत्र जगह देगा.
13. अभिरक्षक द्वारा सीमाशुल्क कर्मचारियों के लिए निकटतम रेलवे के मुख्य स्थान से या सुविधाजनक स्थान से निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी.
14. अभिरक्षक द्वारा अभिरक्षित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए सफाई, पानी, अन्य संबद्ध सुविधाओं तथा कैटीन की भी उचित व्यवस्था की जाएगी.
15. जहां कहीं आयुक्त से अनुरोध प्राप्त होगा, वहाँ अभिरक्षक द्वारा क्षेत्र में तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों के लिए, आवासीय स्थान उपलब्ध कराना होगा.
16. अभिरक्षक सीमाशुल्क क्षेत्र से पत्तन के मुख्य द्वार/ निर्यात/यानांतरण के लिए अन्य किसी क्षेत्र पर वहन किए जा रहे निर्यात माल पर लगाए जाने वाले समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित कर प्रोत्साहन के लिए बैंक प्रत्याभूति सहित अलग बांड प्रस्तुत करेगा. उक्त सीमाशुल्क क्षेत्र से पत्तन के मुख्य द्वार/ अन्य क्षेत्रों में यानांतरित करते समय नष्ट होनेवाले माल पर लगाये जाने वाले शुल्क या अन्य जुर्माने के लिए भी अभिरक्षक उत्तरदायी होगा.
17. अभिरक्षक पत्तन में तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों के खर्च का वहन करेगा. सीमाशुल्क आयुक्त स्टेशन के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, उस सुविधा में वहां तैनात किए जानेवाले कर्मचारियों की संख्या का निर्णय करेगा.
18. अभिरक्षक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों या समय समय पर लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन जप्त किये गये/रोक रखे गए कोई भी माल /कंटेनर/ वाहन/पोत को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में निः शुल्क रखेगा. सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी कोई रोक प्रमाणपत्र या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत रोक रखे गए किसी माल के डेमेरेज की कमी का अभिरक्षक सम्मान करेगा.
19. नियुक्ति की समय सीमा प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की होगी. आयुक्त स्पष्ट कारण बताकर और अभिरक्षक को मामले की सफाई देने के लिए अवसर देने के बाद, किसी भी समय नियुक्ति को समाप्त कर सकते हैं.

20. अभिरक्षक सीमाशुल्क क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के नियंत्रणाधीन पोतों/अन्य वाहनों को चलाने, उसे खड़ा करने/बर्थिंग के लिए कोई फीस नहीं लगाएगा.

21. अभिरक्षक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन लागू नियमों एवं विनियमों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 या डी जी एफ टी द्वारा जारी विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के तहत जारी अधिसूचना और सार्वजनिक सूचनाओं का पालन करने के लिए वचनबद्ध रहेगा .

[फा. सी. सं. VIII/48/13/2007-कस. टेक]

जे. पी. ग्रेगरी, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE,
CUSTOMS AND SERVICE TAX

NOTIFICATION

Thiruvananthapuram, the 30th September, 2008

No. 1/2008-Cus.

S.O. 2954(E).— The Port Officer, Neendakara Port, having his office at Asramam, Kollam has been designated by the Government of Kerala vide G.O.(Rt) No.131/2008F&PD dated 27.02.2008 as Custodian of goods at Kollam Sea Port (hereinafter referred to as the Custodian for short). The Custodian has confirmed the fact to the Commissioner of Customs & Central Excise, Thiruvananthapuram of the said G.O. designating him as the Custodian. The Director of Ports, Directorate of Ports, Thiruvananthapuram vide letter C.No.C1-1007/2007 dated 28.02.2008 has applied to the Commissioner of Customs & Central Excise, Thiruvananthapuram to appoint the Port Officer, Neendakara as custodian under Section 45(1) of the Customs Act, 1962 for the sea port at Kollam

The Port Officer, Sea Port, Kollam, Kollam District, Kerala State is appointed as custodian under Section 45(1) of the Customs Act, 1962 and is granted permission to allow entry/exit of containers containing the goods or other goods to be exported/imported from time to time by various exporters/importers and storage of empty containers and goods at designated area(container yard) under the following conditions:

1. The Custodian shall allow import and export of goods including the Empty containers and laden containers to enter/exit the designated area by ship/road/rail and shall be responsible for proper receipt, handling and storage.

2. The Custodian shall comply with the provisions of Section 45(2) of the Customs Act, 1962 as well as Rules and Regulations and instructions issued from time to time in this regard.
3. The Custodian shall provide safe, secure and spacious premises for loading, unloading and storing containerized cargo. The Custodian shall be responsible for proper receipt, handling, storing of goods and shall be accountable for the loss of the imported goods after landing and before clearance as well as the goods meant for export/transshipment.
4. If any imported/export/transshipment goods are pilfered or lost after unloading in the Customs Area or while in the custody of the custodian, then in terms of provision of Section 45(3) of the Customs Act, 1962, the custodian shall be liable to pay duty on such goods.
5. The imported/export/transshipment goods, which are not cleared for home consumption or warehousing or exported/transshipped within 30 days of unloading thereof or within such further time period as the proper officer may allow; or the imported goods, to which the importer relinquishes his title as provided in Section 23(2) of the Customs Act, 1962 shall be forthwith sold under the provision of the Section 48 of the Customs Act, 1962, by the Custodian after obtaining written permission from the proper officer of Customs and also following the procedure envisaged under section 150 of the Customs Act, 1962.
6. Details of any goods imported but not cleared within 30 days shall be brought to the notice of proper officer of Customs.
7. The custodian shall provide sufficient and modern handling equipment in operational condition for handling the containers in laden and unladen condition in the area
8. The custodian shall not alter the plan of the accommodation, boundary wall and building etc. without the concurrence of the Commissioner.

9. The custodian shall insure all goods stored in the Customs area
10. For the proper discharge of duties the custodian shall undertake to execute a bond in proper form. The value of the bond shall be equal to the average duty involved on the goods likely to be handled in the premises for a period of 30 days. The amount of bond shall be reviewed annually by the Commissioner.
11. Security of the premises shall be the responsibility of the custodian subject to the prior approval of the Commissioner, for the arrangements. The cost for the security shall be borne by the custodian.
12. The custodian shall provide free furnished office space for the Customs Officers
13. Free suitable transport from the nearest railway head or suitable point shall be provided for the Customs staff by the custodian
14. The custodian shall make adequate arrangements for sanitary facilities, water supply and other allied facilities, including the canteen facility for the officers working in the area
15. Residential accommodation for the customs staff posted in the area shall also be provided for by the custodian wherever requisitioned by the Commissioner of Customs
16. The custodian shall give separate bond with bank guarantee as prescribed by the Board from time to time towards the duty incentive involved in the export goods transported from the customs area to the gateway port/any other area for export/transshipment. The custodian would also be held responsible for the duty and for other penalties leviable for the goods lost during the transshipment from the said customs area to the gateway port/other customs area.

17. The custodian shall bear the cost of the customs staff posted at the port. The Commissioner of customs shall decide the number of staff, which is required to be posted in the facility considering the workload in the station.
18. The Custodian shall store/keep in their safe custody free of cost any cargo/container/vehicle/vessel, seized/detained under the provisions of the Customs Act, 1962 or any other act for the time being in force. The custodian shall honour any detention certificate issued by the Customs department/or waiver/reduction of any demurrage in respect of any cargo detained under Customs Act, 1962.
19. Duration of the appointment shall initially remain valid for a period of five years from the date of issue of this notification. The Commissioner shall have the right to terminate the appointment at any time after assigning specific reasons and giving an opportunity to the custodian to explain the case.
20. The custodian shall allow movement, parking/berthing of Customs vessels/other vehicles under control of Customs in the Customs area without any charges.
21. The custodian shall undertake to adhere to the rules and regulations applicable under the Customs Act, 1962 and the rules and regulations framed there under and notification and public notices issued under the Customs Act, 1962 or by the DGFT under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

[F. C. No. VIII/48/13/2007-Cus. Tech]

J. P. GREGORY, Commissioner